



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2007/फाल्गुन 28, 1928

No. 116]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007/PHALGUNA 28, 1928

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

सा.का.नि. 207(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) संशोधन नियमावली, 2007 है।

(2) ये नियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7 में उप-नियम (2) में:—

(i) खण्ड (क) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(क) बिना प्राधिकृत हुए एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित छुट्टी की तारीख की समाप्ति अथवा मंजूरी लिए बिना अनुपस्थित रहे; अथवा”

(ii) खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) छुट्टी सहित अथवा बिना छुट्टी के पांच वर्ष से अधिक तक ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहे चाहे अनधिकृत अनुपस्थित 1 वर्ष से कम हो अथवा”

[सं. 11019/15/2003-अ.भा.से.-III]

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

पाद टिप्पणी:—मुख्य नियम दिनांक 12 सितम्बर, 1955 की अधिसूचना संख्या 5/2/53-अ.भा.से.-(III) द्वारा भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 1979 के अंतर्गत दिनांक 17 सितम्बर, 1955 को प्रकाशित किए गए और तदनंतर निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	14/9/66-अ.भा.से.(III)	19-10-1966	1633	19-10-1966
2.	14/2/68-अ.भा.से.(III)	5-09-1968	1562	14-09-1968

1	2	3	4	5
3.	7/1/73-अ.भा.से.(III)	02-01-1975	39	18-01-1975
4.	1/9/74-अ.भा.से.(III)	10-06-1975	754	21-06-1975
5.	11019/5/76-अ.भा.से.(III)	20-06-1977	815	25-6-1977
6.	11019/7/76-अ.भा.से.(III)	20-06-1977	816	26-6-1977
7.	25011/46/76-अ.भा.से.(III)	28-03-1978	451	8-4-1978
8.	11019/9/76-अ.भा.से.(III)(ख)	17-07-1977	1109	31-7-1976
9.	11019/13/77-अ.भा.से.(III)	01-07-1977	431(अ)	1-7-1977
10.	11019/3/77-अ.भा.से.(III)	28-06-1978	894	15-7-1978
11.	11019/14/78-अ.भा.से.(III)	27-01-1979	190	10-2-1979
12.	25011/34/77-अ.भा.से.(III)(ख)	12-02-1978	254	18-2-1978
13.	11019/40/77-अ.भा.से.(III)	22-02-1979	366	10-3-1979
14.	11019/5/78-अ.भा.से.(III)	19-04-1980	475	3-5-1980
15.	11019/17/79-अ.भा.से.(III)	28-04-1980	950	29-9-1980
16.	11019/25/90-अ.भा.से.(III)	04-11-1982	931	20-11-1982
17.	11019/24/81-अ.भा.से.(III)	13-04-1983	338	30-4-1983
18.	11019/25/83-अ.भा.से.(III)	03-02-1984	153	18-2-1984
19.	11019/10/84-अ.भा.से.(III)	15-11-1985	1111	30-11-1985
20.	11019/16/85-अ.भा.से.(III)	26-05-1986	411	7-6-1986
21.	11019/10/86-अ.भा.से.(III)	14-05-1987	406	30-5-1987
22.	11019/11/88-अ.भा.से.(III)	29-03-1989	397(अ)	29-3-1989
23.	11019/4/88-अ.भा.से.(III)	08-01-1990	45	27-1-1990
24.	11019/6/90-अ.भा.से.(III)	11-04-1991		
25.	11019/2/90-अ.भा.से.(III)	06-02-1992	94(अ)	11-2-1992
26.	11019/6/91-अ.भा.से.(III)	03-05-1993	252	22-5-1993
27.	11019/3/91-अ.भा.से.(III)	02-09-1992	422	26-9-1992
28.	11019/7/93-अ.भा.से.(III)	22-12-1993	52	22-12-1999
29.	11019/6/97-अ.भा.से.(III)	03-03-1998	60	14-3-1998
30.	11014/15/2003-अ.भा.से.(III)	19-10-2004	373	30-10-2004

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Leave) Rules, 1955, namely :—

- (1) These rules may be called the All India Services (Leave) Amendment Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the All India Services (Leave) Rules, 1955, in rule 7, in sub-rule (2),—

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely :—

“(a) is absent without authorization for a period exceeding one year from the date of expiry of sanctioned leave or permission, or”

(ii) for clause (b), the following shall be substituted, namely :—

“(b) is absent from duty for a continuous period exceeding five years even if the period of the unauthorized absence is for less than a year, or”

[No. 11019/15/2003-AIS-III]

G. C. PANDEY, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification No. 5/2/53-AIS(II), dated the 12th September, 1955 in Gazette of India under number G.S.R. 1979, dated the 17th September, 1955 and subsequently amended *vide* :

Sl. No.	Notification No.	Date	G.S.R. No.	Date of Publication
1	2	3	4	5
1.	14/9/66-AIS(III)	19-10-1966	1633	29-10-1966
2.	14/2/68-AIS(III)	05-09-1968	1562	14-09-1968
3.	7/1/73-AIS(III)	02-01-1975	39	18-01-1975
4.	1/9/74-AIS(III)	10-06-1975	754	21-06-1975
5.	11019/5/76-AIS(III)	20-06-1977	815	25-06-1977
6.	11019/7/76-AIS(III)	20-06-1977	816	26-06-1977
7.	25011/46/76-AIS(III) B	28-03-1978	451	8-04-1978
8.	11019/9/76-AIS(III)	17-07-1977	1109	31-07-1976
9.	11019/13/77-AIS(III)	01-07-1977	431(E)	1-07-1977
10.	11019/3/1977-AIS(III)	28-06-1978	894	15-07-1978
11.	11019/14/1978-AIS(III)	27-01-1979	190	10-02-1979
12.	25011/34/77-AIS(II) B	12-02-1978	254	18-02-1978
13.	11019/40/77-AIS(III)	12-02-1979	366	10-03-1979
14.	11019/5/78-AIS(III)	19-04-1980	475	3-05-1980
15.	11019/17/79-AIS(III)	28-04-1980	950	29-09-1980
16.	11019/25/90-AIS(III)	04-11-1982	931	20-11-1982
17.	11019/24/81-AIS(III)	13-04-1983	338	30-04-1983
18.	11019/25/83-AIS(III)	03-02-1984	153	18-02-1984
19.	11019/10/84-AIS(III)	15-11-1985	1111	30-11-1985
20.	11019/16/85-AIS(III)	26-05-1986	411	7-1986
21.	11019/10/86-AIS(III)	14-05-1987	406	30-05-1987
22.	11019/11/88-AIS(III)	29-03-1989	397(E)	29-03-1989
23.	11019/4/88-AIS(III)	08-01-1990	45	27-01-1990
24.	11019/6/90-AIS(III)	11-04-1991	—	—
25.	11019/2/90-AIS(III)	06-02-1992	94(E)	11-02-1992
26.	11019/6/91-AIS(III)	03-05-1993	252	22-05-1993
27.	11019/3/91-AIS(III)	02-09-1992	422	26-09-1992
28.	11019/7/93-AIS(III)	22-12-1993	52	22-12-1999
29.	11019/6/97-AIS(III)	03-03-1998	60	14-3-1998
30.	11019/15/2003-AIS(III)	19-10-2004	373	30-10-2004